

Regd. Office : R-815, (B-11), New Rajinder Nagar, New Delhi-110060 Email : hillridgeinvest@gmail.com, Website : hillridgeinvestments.in, CIN : L65993DL1980PLC010757 Tel. : +91-11-28744604, Mob. : +91-9891095232

#### Dated: 11-11-2020

To,

The Head-Listing & Compliances **Metropolitan Stock Exchange of India Limited** Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098

#### <u>Sub:-</u> <u>Filing of clipping of the Unaudited Financial Results published in the</u> <u>newspaper for the quarter and half year ended on 30<sup>th</sup> September, 2020</u> <u>as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u> <u>Regulations, 2015 (Symbol-HILLRIDGE)</u>

Dear Sir,

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of News Papers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English News Paper) dated **11/11/2020** in which Unaudited Financial Results of the Company has been published for the quarter and half year ended on **30<sup>th</sup> September**, **2020** as approved by the Board of Directors of the company in their meeting held on **10/11/2020**.

You are requested to take on your records and acknowledge the same.

For and on Behalf of Hillridge Investment Limited



(Managing Director) DIN: 07827689 Encl.: a/a

Moni

### MoneyMakers FAST SUPER FAST Editorial

#### No blues for India

US President-elect Joe Biden will be doing plenty of fence-mending with global allies in the coming months after four years of diplomatic tantrums by President Donald Trump. Biden's first priorities will be rejoining the 2015 Paris Climate Pact Trump abruptly exited two years ago, and normalising US ties with Europe. Biden's vowed, in fact, the US will rejoin the Paris accord on his first day in office. The President-elect will also come back to WHO that Trump had guit. The US will keep pushing for Europe to contribute more to NATO's budget but it's likely to be a less divisive issue. The key US policy focus under Biden, as one aide put it, will remain "China, China, China." Trump's tariff war and other anti-China moves defined his foreign policy. While Biden may seek to lower temperatures and strike some compromise tariff deal with China, he's likely to up human rights pressure. And both sides are now openly ranged against each other: The US is determined to preserve its No. 1 superpower status while China is equally committed to grabbing it.

# Hyperloop test ride with passengers coming to Pune soon

#### MM BUREAU

New Delhi/November 10 A Virigin release said that with the first passengers travelling safely, the next ride will be conducted in Pune. Hyperloop is a new mode of ultra-fast mass transportation solution that transports people and cargo through a pod in a vacuum environment. Virgin Hyperloop has also

signed an MoU with Punjab's transport department in December 2019 to expand their relationship with the state to explore opportunities in northern India.

Virgin Hyperloop, which working on a proposed Mumbai-Pune hyperloop project in India, said on Monday that people had



successfully travelled in the hyperloop pod at their test facility in the US for the first time. A Virigin release said that with the first passengers travelling safely, the next ride will be conducted in

Pune. Hyperloop is a new mode of ultra-fast mass transportation solution that transports people and cargo through a pod in a vacuum environment.

Human testing in

the United States brings hyperloop projects in India one step closer to reality, the company said. In India, the Maharashtra government has deemed hyperloop a public infrastructure project and approved the Virgin Hyperloop-DP World Consortium as the original project proponent for the Mumbai-Pune hyperloop project. Virgin Hyperloop said it was looking to work with central authorities in India to explore a regulatory path for hyperloop in the country.

Today's test is a significant step forward towards a commercial hyperloop in India perhaps the world's first - connecting Pune with Mumbai along the existing

expressway," Harj Dhaliwal, MD of Middle East and India for Virgin Hyperloop, said. "The opportunity for India to lead the world in this new form of transportation is unprecedented. The project would be the largest private infrastructure investment in Maharashtra, creating 1.8 million direct and indirect jobs and \$36 billion in socioeconomic benefits," he said. Last month, Virgin

Hyperloop announced a partnership with Bangalore International Airports to conduct a feasibility study for a proposed hyperloop corridor from Bangalore airport. The study, which focuses on technical, economic and route feasibility, is expected to be completed in two phases of six months each. With speeds of up to 1,080 kmph, hyperloop could transport thousands of passengers per hour from the airport to the city centre in under 10 minutes, according to the preliminary analysis. Virgin Hyperloop has also

signed an MoU with Punjab's transport department in December 2019 to expand their relationship with the state to explore opportunities in northern India.

11 NOVEMBER 2020 NEW DELHI

Virgin Group founder Richard Branson said with this successful test, they have shown that this innovation will change the way people everywhere live, work, and travel in the years to come. "For years, the team at Virgin Hyperloop has been working on making the technology a

reality," Branson said. Sultan Ahmed Bin Sulayem, chairman of Virgin Hyperloop and group chairman and CEO of DP World, watched this passenger testing first-hand in Las Vegas, Nevada and said the team at Virgin Hyperloop would transform this technology into a safe system, and get a step closer to ushering in a new era of ultra-fast, sustainable movement of people and goods.

#### Former Petronet **CEO Prabhat Singh** joins Reliance firm MM BUREAU

New Delhi/November 10

Former Petronet LNG Ltd CEO Prabhat Singh has joined a Reliance Industries Ltd affiliate firm, second top executive to join billionaire Mukesh Ambani-run group within weeks of demitting office. Singh, who completed a five-term term at India's largest liquefied natural gas importer Petronet in mid-September, joined the "business leadership team of the India Gas Solutions (IGS)", an employee communication by Reliance Industries executive director P M S Prasad said. In August this year, former Indian Oil Corp (IOC) chairman Sanjiv Singh joined Reliance Industries Ltd (RIL) as a group president for the firm's oil-to-chemicals business.Singh had retired from India's top oil firm in June-end. "He (Prabhat Singh) will lead and drive the IGS organisation, aimed at assured supply of natural gas to meet its energy demand of India,' Prasad wrote. Singh's exact role, designation and hierarchy in the organisation were fuzzy. RIL and its partner BP did not answer emails sent for comments. India Gas Solutions Private Limited (IGS) is a 50:50 joint v eture of supermajor BP and RIL that is focused on sourcing and marketing of natural gas in India. Bibhas Ganguly, an executive with RIL, is the chairman of IGS. Vinod Tahiliani, who was previously with BP, was named chief executive officer  $(\rm CEO)$  of the company in February 2018. "As a cleaner, sustainable urce, the demand for natural gas is expected to grow exponential rate. We are confident that with his ence and abilities. Prabhat will steer IGS towards g this exponential demand and marketing of natural thin the country," Prasad wrote. rabhat Singh was ated managing director and CEO of Petronet on nber 14, 2015, for an initial period of five years.

#### ei Infra Finance reports % drop in Q2 net ofit at Rs 4.72 crore MM BUREAU New Delhi/November 10

#### SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED CIN-165003DI 1084PI C010141 Read, Off: 47/18, RAJENDRA PLACE METRO STATION NEW DELHI-110060 Email Id: shriniwas.limited@gmail.com, Website: www.shriniwasleasingfinance.com Ph: 9891709895

Unaudited Financial Results for the Quarter & Half Year Ended 30.09.2020

S.	Particulars	For the Current year Quarter Ended	For the Half Year Ended	For the Correspond- ing Previous year Quarter Ended	For the Previous year Ended
NO.	0.112,480,480,490,99	01.07.2020 to 30.09.2020 (₹)	01.04.2020 to 30.09.2020 (₹)	01.07.2019 to 30.09.2019 (₹)	01.04.2019 to 31.03.2020 (₹)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operation	7.73	15.49	2.16	34.00
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	6.20	13.60	(79.97)	(75.52
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional items)	6.20	13.60	(79.97)	(75.44
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional itmes)	6.20	13.60	(79.97)	(75.08
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	6.20	13.60	(79.97)	(75.08
6	Paid up equity share capital	399.70	399.70	399.70	399.70
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) after exceptional item Basic & Diluted	0.16	0.34	(2.00)	(1.88

Note: 1. The above unaudited standalone financial results for the quarter and Half Year ended september 30, 2020 were reviewed by the Audit Committee at their meeting and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 10,2020

2. The above is an extract of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available in the Company's website (www.shriniwasleasingfinance.com)

For and on behalf of board of directors of SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LTD.

**RAJNI TANWAR** 

Date: 10.11.2020 Place: New Delhi

S NO.

	10.11.2020 New Delhi				IG DIRECTOR) In : 08201251		mismatch which meant ed stock of high-selling	compared to la	0		sportation.	car goous	-
Er	HILLRIDGE INVES CIN: L65993DL19 Regd. Off: R-815 NEW RAJINDE nail Id- hillridgeinvest@gmail.com, Website- www.hillridg	980PLC010757 R NAGAR NEW	DELHI-110060		9891095232			INSHINE CAP CIN: L65993DL19 09 Bhanot Plaza II 3 D B 05@gmail.com, Websit	994PLC060154 8 Gupta Road N	ew Delhi -1100			8
	Unaudited Financial Result for the Qua	arter and h	alf year Ei		.2020 LACS EXCEPT EPS		Unaudited Financial Re	sults for the Qu	arter & H	alf Year Er		.2020 ACS EXCEPT EPS)	
S. O.	Particulars	For the Current year Quarter Ended 01.07.2020	For the Half year ended 01.04.2020	For the Same Previous year Quarter Ended 01.07.2019	For the Previous	S.	Particulars		For the Current year Quarter Ended	For the Half Year Ended	For the Correspond- ing Previous year Quarter Ended	For the Previous year Ended	
		to 30.09.2020 (₹)	to 30.09.2020 (₹)	to 30.09.2019 (₹)	to 31.03.2020 (₹)	NO.			01.07.2020 to 30.09.2020	01.04.2020 to 30.09.2020	01.07.2019 to 30.09.2019	01.04.2019 to 31.03.2020	

### **Vehicle registration in Oct less** than same month of 2019 MM BUREAU

this year

New Delhi/November 10 The Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) on Monday informed that vehicle registration in the month

of October had continued to increase month-on-month but that the figures when compared to the same month of 2019 reflect a very noticeable fall.

The previous month saw a number of launches in the Indian automobile sector and was rated as one of the best months for many in what has otherwise been a challenging 2020. The passenger vehicle segment, in particular, fared reasonably well with festive demand bolstering sales momentum. But FADA notes that there may have been several factors at play which meant that on a year-on-year basis, the figures weren't very heartening.

These factors include lower discounts, supply-

products, and the fact that both Navratri and Diwali while both Navaratri and were in the same month. Diwali were in the same explained Vinkesh Gulati, month of October in 2019, FADA President. FADA also notes that

Diwali is on November 14 entry-level motorcycles October continues to witnessed a lean demand in see positive momentum two-wheeler segment while medium and commercial on monthly basis but on a yearly basis the negative heavy vehicles' segment slide continues to increase. continues to bleed. On the The 9 days Navratri period flip side, small commercial witnessed robust vehicle vehicles' segment is registrations but could not witnessing solid demand save October to go in red as owing to local goods

**Business** 

1	Total Income from operation	(₹)	(₹) - 10.	(₹	5)	(₹)			30.09.202 (₹)	) 30.09.20 (₹)	100 C	9.2019 ₹)	31.03.2020 (₹)
	5 S								Unaudited	Unaudite			Audited
2	items	(0.88)			(2.23)	(5.41)		Total Income from operation Net Profit / Loss for the period before tax and exceptiona	98.1 I 74.4		110000	95.80 84.33	309.44 117.88
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exception itmes)	(0.88)	) (2.9	94)	(2.23)	(5.41)		items 3 Net Profit/ Loss for the period before tax (after exception				84.33	84.42
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exception itmes)	(0.88)	) (2.9	94)	(2.23)	(5.41)		items) 4 Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional				84.33	55.28
5		(0.88)	) (2.9	94)	(2.23)	(5.41)		itmes) 5 Total [Comprehensive income/ loss for the period	74.4	20. JUDEO	10.45	84.33	55.20
6	other comprehensive income/ loss (after tax)]	852.00	852.	00	852.00	852.00		[comprising profit/ loss for the period (after tax) and oth comprehensive income/ loss (after tax)]		1 100		04.00	00.2
0						(0.06)		5 Paid up equity share capital	1,302.0	9 1,302	2.09 1	,302.09	1,302.09
1	Earning per share (of Rs. 10/- each) after exception item Basic & Diluted	(0.01)	) (0.0	55)	(0.03)	(0.00)		7 Earning per share (of Rs. 10/- each) after exceptional ite Basic & Diluted			1.16	0.65	0.4
avai Date	ting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, ilable in the Company's website (www.hillridgeinvestments. e: 10.11.2020 ce: New Delhi BIHARIJI ISPAT U	in).	For and ( HILL	on behalf of LRIDGE IN (M/	board o VESTME	f directors of NTS LIMITED Sd/- MONI G DIRECTOR) N :07827689	av Da	sting Obligations and Disclosure Requirements) Regulat ilable in the Company's website (www.sunshinecapital e: 10.11.2020 ce: New Delhi CARBO INDUSTRIA	in ).	For and	on behalf of Sun (M.	f board of Ishine Ca Surendra ANAGING	
		42 NEUDI	PLACE, N	EW DELHI	,110019	6		Regd Office: Flat No. 702, 7th Floor, Kanchen E-mail : hcsIndl@yahoo.co.in,	unga, 18 Baral	chamba Roa	ad, New Do	elhi - 110	0001
EXT	Registered Office: 602, CHIRANJIV TOWER, Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPT	gmail.com, NAL RESUI	Web-site:w	/ww.biharij		10192 (an an a		E-mail : hcsindi@yahoo.co.in, EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED	FINANCIAL RE 30TH SEPTEN	SULTS FO	)r the QU )	JARTER	(Rs. in Lakt
	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC	gmail.com, CIAL RESUI EMBER 30, Quarter	Web-site:w LTS FOR T 2020 Ended	ww.biharij HE QUAR Half Year	RTER A	(Rs. in Lakhs)	S. No	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED	FINANCIAL RE 30TH SEPTEN Quarter e	SULTS FO	Six montl	JARTER h ended	Rs. in Laki
L.	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPT	gmail.com, CIAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020	Web-site:w LTS FOR T 2020 Ended 30.09.2019	WW.biharij HE QUAR Half Year 30.09.2020	Ended	(Rs. in Lakhs) (Rs. in Lakhs) Year Ended 31.03.2020		EXTRACT OF STANDALONE ÜN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars	FINANCIAL RE 30TH SEPTEN Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (L	OR THE QU Six montl 0.09.2020 3 Jnaudited) (	JARTER h ended 30.09.201 Unaudite	R AND (Rs. in Lak Year ended 31.03.20 d) Audite
 D.	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS	gmail.com, CIAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited	Web-site:w LTS FOR T 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited	WW.biharij HE QUAR Half Year 30.09.2020 Unaudited	Ended	(Rs. in Lakhs) Year Ended 9 31.03.2020 d Audited	1	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations	FINANCIAL RE 30TH SEPTEN Quarter e 30.09.2020 3	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 3	OR THE QU Six montl 0.09.2020 3	JARTER h ended 30.09.201	R AND (Rs. in Lak Year ended 31.03.20 d) Audite
), ), 1 2	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax,	gmail.com, CIAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020	Web-site:w LTS FOR T 2020 Ended 30.09.2019	WW.bihari HE QUAR Half Year 30.09.2020 Unaudited 231.98	Ended	ND HALF (Rs. in Lakhs) Year Ended 9 31.03.2020 d Audited 5 780.13		EXTRACT OF STANDALONE ÜN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars	FINANCIAL RE 30TH SEPTEN Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (L	OR THE QU Six montl 0.09.2020 3 Jnaudited) (	JARTER h ended 30.09.201 Unaudite	Rs. in Lak           (Rs. in Lak           Year           ended           31.03.20           d) Audite           9           1.9
 D. 1 2 3	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax ( after Exceptional and/or Extraordinary items)	gmail.com, CIAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96	Web-site:w TS FOR T 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited 31.37	WW.biharij HE QUAR Half Year 30.09.2020 Unaudited	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20	Year           9         31.03.2020           4         Audited           5         780.13           3         (160.97)	1	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax,	FINANCIAL RE 30TH SEPTEN Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I 0.13	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (L 0.17	R THE QU Six montl 0.09.2020 3 Jnaudited) ( 0.25	JARTER h ended 30.09.201 Unaudite 0.39	X AND           (Rs. in Lak           Year           ended           31.03.20           d) Audite           9           1.9           (2.25)
 D. 1 2 3 4	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	gmail.com, DAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96 8.32	Web-site:w LTS FOR T 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited 31.37 16.02	Haif Year 30.09.2020 Unaudited 231.98 (22.71)	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20 27.13	Year           Ended           31.03.2020           d           Audited           5           780.13           3           (160.97)	1 2	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (before tax (After Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax,	FINANCIAL RE 30TH SEPTEM Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I 0.13 (1.05) (1.05)	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (L 0.17 (0.94) (0.94)	Six montl           0.09.2020         3           Jnaudited) (         0.25           (1.70)         (1.70)	JARTER h ended 30.09.201 Unaudite 0.39 (1.65 (1.65)	R AND         Year           (Rs. in Lak         ender           19         31.03.20           d) Audite         9           9         1.9           )         (2.25)           )         (2.25)
 D. 1 2 3 4 5	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	gmail.com, IAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96 8.32 8.32	Web-site:w TS FOR T 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited 31.37 16.02 16.02	Ww.biharij HE QUAR Half Year 30.09.2020 Unaudited 231.98 (22.71) (22.71)	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20 27.11 27.11	Year           Ended           31.03.2020           d           Audited           5           780.13           3           (160.97)	1 2 3 4	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (before tax (After Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items)	FINANCIAL RE 30TH SEPTEM Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08)	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (L 0.17 (0.94) (0.94) (0.97)	Six montl           0.09.2020           Jnaudited) (           0.25           (1.70)           (1.86)	<u>h ended</u> 30.09.201 <u>Unaudite</u> 0.35 (1.65 (1.65) (1.80)	R AND         Year           (Rs. in Lab         ender           19         31.03.21           d) Audite         9           1.5         (2.23)           )         (2.24)           )         (2.24)
	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	gmail.com, IAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96 8.32 8.32 8.32 8.31 7.54	Web-site:w 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited 31.37 16.02 16.02 7.53 1.26	Haif Year 30.09.2020 Unaudited 231.98 (22.71) (22.72) (23.49)	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20 27.13 27.13 15.55 9.28	AND HALF (Rs. in Lakhs)           Year Ended 31.03.2020           d         Audited           5         780.13           3         (160.97)           3         (160.97)           5         (153.96)           3         (152.95)	1 2 3 4 5	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (before tax (After Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Total Comprehensive income (after tax)	FINANCIAL RE 30TH SEPTEM Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (U 0.17 (0.94) (0.94) (0.97) 74.28	Six montl           0.09.2020           Jnaudited) (           0.25           (1.70)           (1.86)           350.19	h ended 30.09.201 Unaudite (1.65 (1.65 (1.80) 52.90	R AND         Year           (Rs. in Lab         ender           31.03.21         d)           4)         Audite           9         1.5           )         (2.23)           )         (2.24)           )         (2.24)           )         (2.24)           )         (2.49)           )         (2.49)
 D. 1 2 3 3 4 5 6	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital	gmail.com, CIAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96 8.32 8.32 8.31	Web-site:w TS FOR T 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited 31.37 16.02 16.02 7.53	Haif Year 30.09.2020 Unaudited 231.98 (22.71) (22.71) (22.72)	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20 27.13 27.13 15.55	AND HALF (Rs. in Lakhs)           Year Ended 31.03.2020           d         Audited           5         780.13           3         (160.97)           3         (160.97)           5         (153.96)           3         (152.95)	1 2 3 4 5 6	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (before tax (After Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Total Comprehensive income (after tax) Equity Share Capital	FINANCIAL RE 30TH SEPTEM Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08)	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (L 0.17 (0.94) (0.94) (0.97)	Six montl           0.09.2020           Jnaudited) (           0.25           (1.70)           (1.86)	<u>h ended</u> 30.09.201 <u>Unaudite</u> 0.35 (1.65 (1.65) (1.80)	R AND         Year           (Rs. in Lab         ender           31.03.21         d)           4)         Audite           9         1.5           )         (2.23)           )         (2.24)           )         (2.24)           )         (2.24)           )         (2.49)           )         (2.49)
 D. 1 2 3 4 4 5 6 6 7	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year as on 31.03.2020	gmail.com, IAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96 8.32 8.32 8.32 8.31 7.54	Web-site:w 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited 31.37 16.02 16.02 7.53 1.26	Haif Year 30.09.2020 Unaudited 231.98 (22.71) (22.72) (23.49)	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20 27.13 27.13 15.55 9.28	AND HALF (Rs. in Lakhs)           Year Ended 31.03.2020           d Audited           5         780.13           3         (160.97)           3         (160.97)           5         (153.96)           3         (152.95)	1 2 3 4 5	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (before tax (After Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Total Comprehensive income (after tax) Equity Share Capital Earning per share of Rs.10 each (a) Basic (Rs.)	FINANCIAL RE 30TH SEPTEM Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (I 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43)	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Inaudited) (L 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39)	Six montl           0.09.2020           Jnaudited) (           0.25           (1.70)           (1.70)           (1.86)           350.19           24.90           (0.75)	A ended h ended 30.09.201 Unaudite 0.39 (1.65 (1.65 (1.65) (1.65) (1.65) (1.65) (24.90 (0.72)	R AND           (Rs. in Lab           (Rs. in Lab           ender           ender           31.03.21           ()          (2.23)           ()          (2.24)           ()          (2.24)           ()          (2.24)           ()         (2.24)           ()         (2.24)           ()         (2.24)           ()         (2.24)           ()         (2.24)           ()         (2.24)           ()         (2.24)           ()         (1.14)
 D. 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPTI PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year as on	gmail.com, IAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96 8.32 8.32 8.32 8.31 7.54	Web-site:w 2020 Ended 30.09.2019 Unaudited 31.37 16.02 16.02 7.53 1.26	Haif Year 30.09.2020 Unaudited 231.98 (22.71) (22.72) (23.49)	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20 27.13 27.13 15.55 9.28	ND HALF (Rs. in Lakhs)           Year Ended 9 31.03.2020           d Audited           3 780.13           3 (160.97)           3 (160.97)           5 (153.96)           3 (152.95)           0 600.00           2971.91	1 2 3 4 5 6 7	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (before tax (After Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Total Comprehensive income (after tax) Equity Share Capital Earning per share of Rs.10 each	FINANCIAL RE 30TH SEPTEN 30.09.2020 3 (Unaudited) (I 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43) (0.43)	SULTS FO IBER, 2020 nded 0.09.2019 30 Jnaudited) (U 0.17 (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39)	Six montl           0.09.2020           Jnaudited) (           0.25           (1.70)           (1.86)           350.19           24.90           (0.75)	A ended h ended 0.09,201 Unaudite 0.35 (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 (0.72) (0.72)	R AND         (Rs. in La           (Rs. in La         ende           ende         31.03.2           d) Audit         9           ) (2.2         )           ) (2.2           ) (2.2           ) (2.2           ) (2.4           ) (2.4           ) (2.4           ) (2.4           ) (1.1           ) (1.1
L. 0, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 8 Notes: 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ph. No:- 011-26414057, E-mail Id: biharijiispat@ TRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANC YEAR ENDED SEPT PARTICULARS Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year as on 31.03.2020 "Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)" (a) Basic (b) Diluted	gmail.com, IAL RESUI EMBER 30, Quarter 30.09.2020 Unaudited 192.96 8.32 8.32 8.31 7.54 600.00 0.13 0.13 0.13 Un-audited Fin Regulation 33 udited Financi vebsite viz. wy	Web-site:w           TS FOR T           2020           Ended           30.09.2019           Unaudited           31.37           16.02           7.53           1.26           600.00           0.02           0.03	Haif Year 30.09.2020 Unaudited 231.98 (22.71) (22.71) (22.72) (23.49) 600.00 (0.39) (0.39) s for the qua Listing Oblig r the quarted m and on Co 30, 2020 ha e meetings h	Ended 30.09.201 Unaudite 69.20 27.13 27.13 15.55 9.28 600.00 0.15 0.	ND HALF (Rs. in Lakhs)           Year Ended 3           1           2           3           3           (160.97)           3           (160.97)           5           (152.95)           0           600.000           29771.91           5           (2.55)           (2.55)           (2.55)           (15/2.95)           0           600.000           29771.91           5           (2.55)           (2.55)           (2.55)           (2.55)           (2.55)           (2.55)	1 2 3 4 5 6 7 1. <b>NG</b> 1.	EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED SIX MONTHS ENDED Particulars Total Income from Operations Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (before tax (After Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items) Total Comprehensive income (after tax) Equity Share Capital Earning per share of Rs.10 each (a) Basic (Rs.) (b) Diluted (Rs.)	FINANCIAL RE 30TH SEPTEM Quarter e 30.09.2020 3 (Unaudited) (( 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43) (0.43) udit Committ g held on 100 imited Reviewed report is be-	SULTS FO           IBER, 2020           Inded           0.09.2019 30           Jnaudited) (U           0.17           (0.94)           (0.94)           (0.94)           (0.97)           74.28           24.90           (0.39)           (0.39)           the Noverry           vas require           eing subm           udited fina           () Regulat	Six monti           0.09.2020 3           Jnaudited) (           0.25           (1.70)           (1.70)           (1.86)           350.19           24.90           (0.75)           (0.75)           red under           nitted to the           ancial res           tion, 2015	Arver 24	R AND         (Rs. in La           (Rs. in La         ende           ende         31.03.2           d) Audit         (2.2           (a) (2.2         (2.2           (a) (2.2         (2.3           (b) (2.4         (2.4)           (b) (2.4         (1.1)           (c) (1.1)         (1.1)           (c) (1.1)         (1.1)           (c) (2.4)         (1.1)           (c) (1.1)         (1.1)           (c) (2.4)         (1.1)           (c) (1.1)         (1.1)           (c) (1.1)         (1.1)           (c) (1.1)         (1.1)           (c) (2.2)         (c) (2.2)

Srei Infrastructure Finance Ltd (Srei) on Monday reported a drop of 91.5 percent in its consolidated net profit at Rs 4.72 crore in the second quarter ended September 2020. It had posted a net profit of Rs 55.37 crore in the year ago period. Sequentially, the profit was also down from Rs 23.01 crore posted in the June quarter of the current fiscal year. Total consolidated income of the financing company fell to Rs 1,182.21 crore during the July-September period of 2020-21 as against Rs 1,424.18 crore in the same period of 2019-20, it said in a regulatory filing. Consolidated assets under management stood at Rs 43,339 crore as on September 30, 2020 as compared to Rs 44,213 crore as on June 20, 2020, it said in a release. Srei chairman Hemant Kanoria said: "The first half of this financial year has been very challenging for businesses and stability has been the mantra in this period of pandemic. Many sectors have already started doing well. But infrastructure is a sector where projects have long gestation periods; so any fundamental disruption takes a long time to bring business back on track, he said. "The immediate need of the hour is for state governments, the central government and all public sector undertakings to release the dues of the contractors/construction companies, and the judiciary to issue appropriate orders that when an arbitration award is against a government organisation or the government, it should not be 'stayed'. "If cash flow improves in the hands of contractors/infrastructure companies by realisation of dues/arbitration award payments then the companies can revive and complete pending contracts and/or undertake new ones," Kanoria said.

### Gland Pharma IPO subscribed 21% on 2nd day of bidding

#### New Delhi/November 10

The maiden public issue of Gland Pharma, which is owned by Chinese Fosun Pharma, has seen tepid response so far on November 10, the second day of bidding. The Rs 6,480 crore public offer has been subscribed 21 percent as it received bids for 65.03 lakh equity shares against the IPO size of 3.02 crore equity shares, the data available on the exchanges showed. The IPO size of 3.02 crore shares excluded anchor portion through which the company already raised Rs 1,944 crore on last Friday. The portion set aside for retail investors has seen 14.3 percent subscription and that of non-institutional investors 2.3 percent, while the reserved portion of qualified institutional investors has subscribed 47.8 percent.Gland Pharma launched public issue on November 9 with a price band of Rs 1,490-1,500 per share, consisting a fresh issue of Rs 1,250 crore and an offer for sale of over 3.48 crore equity shares by the promoter and selling shareholders. "With benefits of being an out and out integrated injectable/ophthal manufacturer and B2B functionary combined, Gland offers a compelling proposition with its unblemished regulatory track record and customer stickiness besides long-standing manufacturing pedigree, justifying premium valuation," said ICICI Direct which has a subscribe recommendation on the stock. Established in Hyderabad in 1978, Gland Pharma is one of the largest and the fastest-growing injectable-focused B2B companies, with a global footprint across 60 countries.

0001700005

🚵 संवाद 💋	
बुधवार, विक्रम संवत 2077	
मश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है.	

### पटाखों को भूलकर महापर्व पर जलाए दीप दीप जलायें-खुशियाँ मनायें

और उन से हंसकर बाहर आना जीवन की कला है।

त्योहारों की रौनक पटाखों और रोशनी के बिना संभव नहीं है लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक भी हैं। इनका इस्तेमाल एक सीमा तक ही सही है। पटाखे हमें मौत देते हैं। यदि आप नेत्रदान, रक्तदान के समर्थक हैं तो पटाखे न जलाएं।

बढ़ते प्रदूषण और इससे कोरोना मरीजों के मडराते खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पटाखों और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। क्योंकि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय एवं श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दीपावली पर लोग आतिशबाजी से बचें क्योंकि जर्मनी, यूके,फ्रांस,इटली,स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गयी है। कई देशों में तो पुनः लांकडाउन लगाने पर मजबूर भी होना पड रहा है। क्योंकि पटाखों से आंखों की रोशनी चली जाती है। त्योहार की खुशियां देने में हैं लेने में नहीं ।यदि आप प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी हैं तो पटाखे न जलाएं ।क्योंकि पटाखों से प्रकृति और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है। अरबों रुपए की व्यर्थ में बबादीं पटाखों के रूप में हम एक दिन में कर देते हैं। अरबों रुपए में आग लगा देते हैं। जिससे नुकसान ही नुकसान है,फायदा कुछ नहीं है।जितने रुपए के पटाखे हम एक दिन में फूंक देते हैं उतने रुपए से हजारों परिवारों का भरण-पोषण किया जा सकता है। पटाखों से हो रहे दुष्परिणामों के कारण आज हमारा जीवन व्यथित हो रहा है।हजारों मूक प्राणियों का निर्मम हिंसा हो रही है आज हमें जागरूक होने की आवश्यकता है,उन मूक प्राणियों की रक्षा का संकल्प लेने की महती आवश्यकता है।आग लगने से संपत्ति का नुकसान भी हो जाता है। पटाखों से अनेक स्थानों पर भीषण आग लग जाती है जिससे करोड़ों,अरबों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो जाती है और अनेक परिवारों का जीवन अंधकारमय हो जाता है।यह हादसे न सिर्फ दीपावली पर होते हैं अपितु जब भी पटाखों का प्रयोग होता है तब ऐसे हादसे पूरे साल भर होती रहते हैं। गर्भस्थ शिशु एवं बच्चों को भी नुकसान

होता है। पटाखों की तेज विस्फोटक आवाज से पटाखों की तेज विस्फोटक आवाज से तेज रोशनी से बारूद के ढेर से जब हम बड़ों को परेशानी होती है तो गर्भस्थ शिशओं एवं नवजात बच्चों का क्या होता होगा उन्हें अनेक बीमारियां हो जाती हैं तथा गर्भस्थ शिशु के जन्म जात बहरे होने का खतरा भी हो जाता हैं।इस पाप के भागीदार हम पटाखे फोडकर बनते हैं।वाय,जल,ध्वनि और मिडी का प्रदुषण पटाखों की तेज आवाज से ही होता है।ध्वनि प्रदुषण पटाखों की तेज आवाज एवं उनसे निकलने वाली गैसों से वायु प्रदूषण,पटाखा जलने के बाद उसकी अपशिष्ट सामग्री से जल एवं मिट्टी का प्रदूषण होता है जो कि हम सभी को जीवन के लिए प्राणघातक है। पूरे वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा एक दिन में उसे यूं बर्बाद करना क्या समझदार लोगों का काम है।अरबों-अनंतों जीव जंतुओं प्राणियों की हत्या हमें आग की आंच व तपन से डर लगता है तो पटाखों की भयंकर आग से छोटे-छोटे प्राणियों का जल मरना तो निश्चित ही होता है विज्ञान कहता है कि पटाखों की आवाज से अनेक पशुओं के गर्भ भी गिर जाते हैं उसकी विषैली वायु उन्हें अंधा बहरा भी बना देती है दीपोत्सव के महापर्व का पाप का यह तांडव कितना उचित है।आंखों एवं कानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।पटाखों की तेज रोशनी से तथा बारूद आंखों में जाने से आंखें खराब हो जाती हैं। इसकी पटाखों की तेज रोशनी से तथा बारूद आंखों से आंखों में जाने से आंखें खराब हो जाती हैं इसकी तेज आवाज से कानों के परदे भी फट जाते हैं श्विस के रोगियों के लिए यह महापर्व आराधना का नहीं अपितु महायातना का पर्व बन जाता है।उन्हें अनचाही कैद का सामना करना पड़ता है।इसके जिम्मेदार क्या पटाखा फोड़ने वाले नहीं है।ग्लोबल वामिंग का खतरा भी हो जाता है।पटाखों के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एवं हानिकारक गैसों से वायुमंडल दूषित होता है, जिससे ग्लोबल वामिंग का खतरा बढ़ रहा है ईश्वर की वाणी का भी अपमान होता है किसी भी धर्म में हिंसा करने, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का उपदेश नहीं दिया गया है। हम पटाखे फोड़कर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा अनेक जीव जंतुओं को जिंदा जलाकर ईश्वर की वाणी का भी अपमान व अनादर कर रहे हैं। शारीरिक क्षति एवं जनहानि भी होती है।बम विस्फोट करने वालों को हम आतंकवादी कहते हैं तो विश्व में प्रतिवर्ष पटाखों की आग से लाखों लोगों अंधे,बहरे,घायल हो जाते हैं तथा हजारों की मृत्यु हो जाती है।आपका पटाखा प्रेम के दुष्परिणाम देखने के लिए दीपावली के अगले दिन अपने नगर के अस्पताल में जरूर जाएं और फिर स्वयं विचार करें कि हम कौन हैं।पटाखे फोड़ने से चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य ही दिखाई पडता है। पटाखों के टुकड़ों में महापुरुषों एवं देवी-देवताओं के चित्र भी होते हैं जो हमारे पैरों के नीचे आते हैं ऐसी गंदगी करके हम ग्रीन सिटी,क्लीन सिटी की

कल्पना को साकार कैसे कर सकते हैं।

## दिवाली से पहले साढ़े सात महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा प्रेम मंदिर

<u>महालक्ष्मी ब्यूरो</u> लखनऊ, 10 नवम्बर उत्तर प्रदेश के मथुरा में करीब साढे सात माह से बंद पड़े जगदगुरू कृपालु परिषद श्यामा धाम ट्रस्ट द्वारा कलात्मक दृष्टि से बनाया गया प्रेम

मंदिर 11 नवंबर से श्रद्धालु भक्तों के लिए नियमित रूप से खुल जायेगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार प्रेम मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु भक्तों को कोविड-19 के लिये निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना होगा। मन्दिर प्रवेश के दौरान श्रद्धालु भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग कर मशीन से कोविद-19 की जांच होगी और सैनीटाइज करके उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। बिना मुंह पर मास्क के प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी भक्त को मन्दिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मन्दिर के जन संपर्क अधिकारी

मान्दर के जन संपक आवकारा अजय त्रिपाठी ने बताया कि महान संत कृपालु महराज इस मन्दिर के माध्यम से पूरे विश्व को आपसी प्रेम और सौहार्द्र का संदेश देना चाहते थे इसीलिए उन्होंने इस मन्दिर का नाम

भाजपा की जीत पर बोले

सीएम योगी-फिर से साबित

हुआ मोदी हैं तो मुमुकिन है

महालक्ष्मी ब्यूरो

लखनऊ, 10 नवम्बर

आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा

और यूपी में सात सीटों पर हुए

उपचुनावों में भाजपा को मिली

जीत पर खुशी जताते हुए पार्टी कार्यकताओं को बधाई दी। उन्होंने

कहा हि बिहार के अंदर सभी कयासों

को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित

कर दिया है कि 'मोदी हैं तो मुमकिन है।' बीजेपी ने आज पीएम मोदी

जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष

जे.पी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश

के अंदर जो प्रदर्शन किया है मैं इसके लिए पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी

टीम का अभिनंदन करता हूं। यूपी

विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मिली कामयाबी पर उन्होंने कहा कि

भाजपा ने 2017 राज्य विधानसभा

उपचुनावों में अपने परिणाम को एक

बार फिर से दोहराया है।

S. NO.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी



प्रेम मन्दिर रखा था। इस मन्दिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हर वर्ग की रूचि का ध्यान रखा गया है जहां मन्दिर में श्रीराम और श्रीकृष्ण की लीलाओं के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से धार्मिकता की झांकी प्रस्तुत की गई है।

वहीं मन्दिर की कलात्मकता एवं
 ठाकुर की लीला से संबधित सामग्री
 शोध के लिए अच्छा साहित्य बन
 सकती है। मन्दिर की कलात्मक रंग
 बिरंगी रोशनी बच्चों से लेकर हर वर्ग
 के लिए आनन्द की अनुभूति कराता
 है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही
 लगभग आठ साल के शैशव काल
 मं इसने अपनी ऐसी पहचान बना ली

स्थान ः नई दिल्ली

दिनांक : 10.11.2020

र की है कि वृन्दावन के प्राचीन मन्दिरों के इसमें दर्शन के बावजूद श्रद्धालु इस मन्दिर 1 गया को देखने के लिए चुम्बक की तरह कृष्ण खिंचा चला आता है। 9 श्री त्रिपाठी ने दर्शकों से कहा है

की प्रस्तुत कि वे दर्शन करने के बाद ही मन्दिर से बाहर निकल आएं क्योंकि रूकने मकता एवं पर सामाजिक दूरी का पालन करने यत सामग्री में व्यवधान पड़ सकता है। अभी तो हित्य बन मन्दिर को पूरे समय के लिए पूवान्ही तत्मक रंग आठ बजे से साढ़े 12 बजे तक और कर हर वर्ग शाम साढ़े चार बजे से साढ़े आठ बजे रूकारण ही व्यवस्था में कोविद -19 के नियमों शव काल का पालन करने में कठिनाई आती है न बना ली तो व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

S. NO.	Particulars	For the Current year Quarter Ended	For the Half Year Ended	For the Correspond- ing Previous year Quarter Ended	For the Previous year Ended
NU.		01.07.2020 to 30.09.2020 (₹)	01.04.2020 to 30.09.2020 (₹)	01.07.2019 to 30.09.2019 (₹)	01.04.2019 to 31.03.2020 (₹)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audite
1 ]	Total Income from operation	7.73	15.49	2.16	34.0
	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	6.20	13.60	(79.97)	(75.52
	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional items)	6.20	13.60	(79.97)	(75.44
	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional itmes)	6.20	13.60	(79.97)	(75.08
1	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	6.20	13.60	(79.97)	(75.08
6 F	Paid up equity share capital	399.70	399.70	399.70	399.7
	Earning per share (of Rs. 10/- each) after exceptional item Basic & Diluted	0.16	0.34	(2.00)	(1.88

SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L65993DL1984PLC019141 Regd. 0ft: 47/18, RAJENDRA PLACE METRO STATION NEW DELHI-110060

### ्राह्यम्ना स्टील्स लिमिटिड

Date: 10.11.2020 Place: New Delhi

CIN: L27109DL1972PLC319974

पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 702, सातवीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 ईमेल: hcsIndl@yahoo.co.in, फोन : 011 2331 0001-05 (5 लाइनें)

30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के स्वतंत्र एवं संगठित अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का ब्यौरा (रु. लार

				स्वतंत्र					. संगठित		
क	विवरण	तिमाही	समाप्त	छमाही	समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमार्ह	समाप्त	छमाही स	माप्त	वर्ष समाप
क्र. सं.		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.202
20101040		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित
1	संचालनों से कुल आय (शुद्ध)	8.27	5.01	13.26	5.02	304.75	8.27	5.01	13.26	5.02	304.75
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व)	5.13	(2.33)	7.90	(5.53)	4.66	5.13	(2.38)	7.91	(5.63)	4.71
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्)	5.13	(2.33)	7.90	(5.53)	4.66	5.13	(2.38)	7.91	(5.63)	4.71
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्)	3.54	(2.33)	5.32	(5.53)	2.32	3.54	2.38	5.33	(5.63)	2.37
5	कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्)	171.72	32.24	173.45	18.04	(89.01)	171.72	32.19	173.46	17.94	(88.96)
6	इक्विटी शेयर कैपीटल	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11
7	अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु. का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यटिड (रु.)	2.05 2.05	(1.35) (1.35)	3.08 3.08	(3.21) (3.21)	1.34 1.34	2.05 2.05	1.38 1.38	3.09 3.09	(3.26) (3.26)	1.37 1.37

(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रिपोर्ट कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिंटेड को प्रस्तुत की गई है। 2 उपर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किए गए अनधिकृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है।

कते एवं बोर्ड की ओर से

हस्ता/-सुमन लता सारस्वत

(MANAGING DIRECTOR)

DIN: 08201251

जुमन एसा सारस्यस निदेशक DIN : 06932165

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED SUNSHINE CAPITAL LIMITED CIN: L65993DL1980PLC010757 CIN: L65993DL1994PLC060154 Regd. Off: R-815 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060 Read, Off: 209 Bhanot Plaza II 3 D B Gupta Road New Delhi -110055 Email Id- hillridgeinvest@gmail.com, Website- www.hillridgeinvestments.in Ph. +91-11-28744604, +91-9891095232 Email Id: sunshinecapital95@gmail.com, Website: www.sunshinecapital.in Ph: 011-23582393 Unaudited Financial Result for the Quarter and half year Ended 30.09.2020 Unaudited Financial Results for the Quarter & Half Year Ended 30.09.2020 (₹ IN LACS EXCEPT EPS (₹ IN LACS EXCEPT EPS For the For the Same For the For the For the Previous Current year Correspond For the For the Half Previous For the Half year Quarter Current year Quarter Previous ing Previous year ended vear Ended Quarter Year Ended Ended Ended vear Quarter year Ended Particulars Ended 01.04.2019 01.07.2020 01.04.2020 01.07.2019 Particulars Ended NO. 01.07.2020 01.04.2019 01.04.2020 01.07.2019 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020 to to (₹) (₹) (₹) 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020

पटाखा कारीगरों के जीवन से खिलवाड़ भी होता है।पटाखा निर्माण फैक्ट्री में प्रतिवर्ष होने वाली होने वाली दुर्घटनाओं से सैकड़ों कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव के कारण उन्हें कैंसर, अस्थमा आदि बीमारियां हो जाती हैं। इस कार्य हेतु बाल मजदूरी को भी बढ़ावा मिलता है।किसी की जिंदगी की कीमत पर क्या यह जीवन यापन उचित है।पटाखा फोड़ने से हमें लाभ नहीं हानि ही हानि है जो कि प्रकृति के लिए दुष्परिणाम हैं और हरी-भरी धरती मां को खतरा पैदा कर रहे हैं।धरती मां ने हमें खाने के लिए भोजन,पीने के लिए शुद्ध पानी और जीवन जीने के लिए <u>शुद्ध हवा दी है त</u>ो

हम उसके बदले में प्रकृति को क्या दे रहे हैं हिमें महत्वपूर्ण यह है कि हम मिलकर के एक अभियान चलाएं और इस दीपोत्सव के महापर्व पर पटाखों को भूलकर खुशहाली के साथ घी के दीपक जलाएं जिससे चारों खुशियों का उजाला हो और हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे हिम संकल्प लें कि हम दीपावली के महापर्व पर आतिशबाजी को नहीं जलाएंगे तभी हमारा दीपावली का महापर्व मनाना सार्थक होगा।

शुद्ध हवा दी ह तो

वला का महापव मनाना साथक होगा। पुष्येंद्र कुमार जैन सिविल लाइन,चांदमारी, ललितपुर

शाकाहार, अहिंसा एवं पर्यावरण पर राष्ट्रीय बेविनार का आयोजन आज

ललितपुर, 10 नवम्बर वर्तमान शासन नायक भगवान स्वामी निवाणीत्सव (दीपावली) की पूर्व बेला एवं परम पूज्य आचार्य श्री शांतिसागर जी छाणी महाराज के जन्म दिवस प्रसंग पर श्रुत सुंबर्द्धन संस्थान के तत्वावधान में जूम और यूट्यूब

पर लाइव राष्ट्रीय बेविनार का आयोजन परम पूज्य सराकोद्धारक षष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के आशीर्वाद शाकाहार, अहिंसा एवं पर्यावरण बिषय पर आज 11नवम्बर को रात्रि 7:30 बजे से किया जा रहा है।

आयोजन के संयोजक डॉ सुनील संचय ललितपुर ने बताया कि इस दौरान मार्गदर्शन एवं मंगलाचरण ब्र. अनिता दीदी जी, दीप प्रज्ज्वलन श्री आर. के. जैन कोटा, उपाध्यक्ष जैन बैंकर्स ,

धन्यकुमार जी जैन बाहुबली इन्क्लेव दिल्ली करेंगे। आयोजन के मुख्य अतिथि श्री सुरेश जैन जी आईएएस, भोपाल, न्यायमूर्ति विमला जैन जी भोपाल

(सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट), अध्यक्षता डॉ. डी. सी. जैन जी दिल्ली होंगे ामुख्य वक्तागण डॉ. कल्याणमल जी गंगवाल पुणे कोरोना काल और शाकाहार की उपादेयता, डॉ. चिरंजीलाल जी बगड़ा, कोलकाता वर्तमान संदर्भ में अहिंसा की प्रासंगिकता पर, श्री संजय शास्त्री जयपुर (सर्वोदय अहिंसा अभियान) पटाखे, पर्यावरण और हम पर, श्री राहुल जैन बांदा पटाखों से हानियां बिषय पर वक्तव्य देंगे।आयोजन के संयोजक व संचालन डॉ. सुनील जैन संचय, ललितपुर, तकनीकी प्रसारण संयोजन प्रद्युम्न शास्त्री जयपुर, मनीष विद्यार्थी शाहगढ़, मनीष जैन तिजारा, समन्वयक मंडल राजेन्द्र महावीर सनावद, डॉ प्रगति जैन इंदौर,डॉ मनीषा जैन लाडनूं तथा श्रुत संवर्द्धन संस्थान के महामंत्री हंसकुमार जैन, अध्यक्ष योगेश जैन, कोषाध्यक्ष विवेक जैन हैं।

-डॉ. सुनील जैन संचय

1	Total Income from operation	10	10.0	1	8				(₹)	(₹)	(₹)		(₹)
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exception	(0.88)	(2.94	) C	2.23)	(5.41)			Unaudited	Unaudited	Unaudi		dited
	items						1	Total Income from operation Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional	98.17	195.3		95.80 84.33	309.44
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exception itmes)	(0.88)	(2.94	) (3	2.23)	(5.41)	3	items Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional	74.44	150.5		84.33	84.42
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exception itmes)	(0.88)	(2.94	) (1	2.23)	(5.41)	4	items)	74.44	1/2/19/2/385		84.33	55.28
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and	(0.88)	(2.94	) (	2.23)	(5.41)	5	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional itmes) Total [Comprehensive income/ loss for the period	74.44			84.33	55.28
6	other comprehensive income/ loss (after tax)] Paid up equity share capital	852.00	852.0	0 85	52.00	852.00		[comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	10.00270				1953-6655
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) after exception	(0.01)	(0.03	) ((	0.03)	(0.06)	6	Paid up equity share capital	1,302.09	1,302.0			1,302.09
	item Basic & Diluted	100 470			n, 204		7	Earning per share (of Rs. 10/- each) after exceptional item Basic & Diluted	0.57	1.1	5	0.65	0.42
Listir vaila	e above is an extract of Unaudited Financial Results filed ng Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, ible in the Company's website (www.hillridgeinvestments. 10.11.2020 :: New Delhi	2015. The full	format of the For and or	Unaudited F behalf of b RIDGE INVE		sults are ctors of IMITED Sd/- MONI ECTOR)	(Listi availa Date:	<ul> <li>above is an extract of Unaudited Financial Results file ing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation able in the Company's website (www.sunshinecapital.in</li> <li>10.11.2020</li> <li>New Delhi</li> </ul>	s, 2015. The ful	l format of the	Unaudited I behalf of b Sunst	Financial Re	ectors o Limite Sd/ mar Jain RECTOR
_		<u> </u>		<del>6</del>					÷ 0		2		
	कार्बो इंडस्ट्रियल ह			125				फोस्टर इंजीनियरिंग	इडास्ट्रय	લા લા	माटड		
	CIN : L65993DL				~ ^			CIN : L51103DL				•	
		TT Stoler TT	10 anniana	a reason many da							777 77 6	oroll_110	001
	पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर, कंचनज	गेगा बिल्डिंग,	18 जाराखम्ज	। राड, नइ ।	दल्ला-110	001		पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर, कंचन्	जंगा बिल्डिंग,	18 बाराखम्बा	राड, नइ वि	een-110	
	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प	कोन नं. 011 2	2331 0001- 0	5 (5 लाइने	Ť)	13		ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे	ोन : 011 233	1 0001-05	, (5 लाइनें	)	
	पंजाकृत कार्यालय : फ्लंट न. 702, 7वा फ्लार, कचनज इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र	कोन नं. 011 2	2331 0001- 0	5 (5 लाइने	<sup>†)</sup> रिणामों क	ा ब्यौरा		पंजीकृत कार्यालय ः फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर, कंचन ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे ) सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही	ोन : 011 233	1 0001-05	, (5 लाइनें	) रेणामों का	ा ब्यौरा
	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in ए 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ	2331 0001- 0 नअंकेक्षित	5 (5 लाइने वित्तीय प	ीं) रिणामों क (रु. 1	<b>ा ब्यौरा</b> लाखों में)		ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फ 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही	ोन : 011 233 के स्वतंत्र अ	31 0001-05 नअंकेक्षित f	, (5 लाइनें <b>वेत्तीय प</b> र्गि	) रेणामों का (रु. र	<b>ब्यौरा</b> लाखों में)
30	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही	2331 0001- 0 नअंकेक्षित समाप्त	5 (5 लाइने <b>वित्तीय प</b> छिमाही	i) <b>रिणामों क</b> (रु.: 1,समाप्त	ा ब्यौरा <sup>लाखों</sup> में) वर्ष	30	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे	निः 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही	1 0001-05 नअंकेक्षित f समाप्त	, (5 लाइनें <b>वेत्तीय प</b> ्रि छमाही	) रेणामों का (रु. र ,समाप्त	ा ब्यौरा लाखों में) वर्ष
30	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020	2331 0001- 0 नअंकेक्षित समाप्त 30.09.2019	5 (5 लाइने वित्तीय पर् छमाही 30.09.2020	i) <b>रिणामों क</b> (रु. १ रिसमाप्त 30.09.2019	ा ब्यौरा लाखों में) वर्ष समाप्त 31.03.2020		ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फ 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही	निः 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020	1 0001-05 नअंकेक्षित f समाप्त 30.09.2019	, (5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020	) रेणामों का (रु. र समाप्त 30.09.2019	ा ब्यौरा लाखों में) वर्ष समाप् 31.03.20
30	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही	2331 0001- 0 नअंकेक्षित समाप्त	5 (5 लाइने <b>वित्तीय प</b> छिमाही	i) <b>रिणामों क</b> (रु. १ रिसमाप्त 30.09.2019	ा ब्यौरा <sup>लाखों</sup> में) वर्ष	30	<sup>ईमेल -</sup> hcsIndl@yahoo.co.in फे 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण	निः 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही	1 0001-05 नअंकेक्षित f समाप्त	, (5 लाइनें <b>वेत्तीय प</b> ्रि छमाही	) रेणामों का (रु. र ,समाप्त	ा ब्यौरा लाखों में) वर्ष समाप् 31.03.20
<b>3(</b> क्र. सं.	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध)	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020	2331 0001- 0 नअंकेक्षित समाप्त 30.09.2019	5 (5 लाइने वित्तीय पर् छमाही 30.09.2020	i) <b>रिणामों क</b> (रु. १ रिसमाप्त 30.09.2019	ा ब्यौरा लाखों में) वर्ष समाप्त 31.03.2020	<b>3</b> ( क्र. सं.	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध)	निः 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020	1 0001-05 नअंकेक्षित f समाप्त 30.09.2019	, (5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020	) रेणामों का (रु. र समाप्त 30.09.2019	
<b>3(</b> क्र. सं. 1	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित)	2331 0001-0 नअंकेक्षित समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित)	5 (5 लाइने वित्तीय प छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित	ॉ) रिणामों क (रु. 1 ो समाप्त 0 30.09.2019 )(अनअंकेक्षित	<b>छ्यौरा</b> लाखों में) वर्ष समाप्त 31.03.2020 )(अंकक्षित)	30 क्र. सं.	<sup>ईमेल -</sup> hcsIndl@yahoo.co.in फे 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण	ोन : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित)	1 0001-05 नअंकेक्षित 1 समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित)	, ( 5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित)	) रेणामों का (रु. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित)	ा ब्यौरा लाखों में) समाप् 31.03.20 )( अंकेक्षि 2.5
30	इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्)	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13	2331 0001- 0 नअंकेक्षित रसमाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17	5 (5 लाइने वित्तीय पर् छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25	ॉ) रिणामों क (रु. : 1, समाप्त 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.39	ा ब्यौरा लाखों में) वर्ष समाप्त 31,03.2020 )(अंकक्षित) 1.94	<b>3</b> ( क्र. सं.	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्)	ोन : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32	31 0001-05 नअंकेक्षित f . समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.41	, ( 5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61	) रेणामों का (रु. र उग.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81	ा ख्यौरा लाखों में) समाप 31.03.20 )( अंकेक्षि 2.5 (1.31
<b>3(</b> क्र. सं. 1 2	इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व)	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05)	2331 0001- 0 नअंकेक्षित रसमाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17 (0.94)	5 (5 लाइने वित्तीय प छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70)	i ) रिणामों क (रु. : 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 अनअंकेक्षित 0.39 (1.65)	ा ख्यौरा लाखों में) वर्ष समाप्त 31.03.2020 )(अंकेक्षित) 1.94 (2.25)	30 क्र. सं. 1 2	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व)	ोन : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89)	1 0001-05 नअंकेक्षित f समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.41 (0.40)	, ( 5 लाइनें वेत्तीय परि उठमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19)	) रेणामों का (रु. र उ.0.9.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88)	ा ब्यौरा लाखों में) वर्ष समाप् 31.03.20 ( अंकेक्षि
<b>3(</b> क्र. रसं. 1 2 3 4	इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर,	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05)	2331 0001- 0 न अंकेक्षित रसमाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94)	5 (5 लाइने वित्तीय प छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70) (1.70)	i) रिणामों क (रु. : 0 30.09.2019 )(अनअंकेक्षित 0.39 (1.65) (1.65)	<b>1 व्यौरा</b> लाखों में) वर्ष समाप्त 31,03,2020 ((अंकेश्रित)) 1.94 (2.25) (2.25)	30 क्र. सं. 1 2 3	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्)	ोन : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89)	1 0001-05 न अंकेक्षित f . समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.41 (0.40) (0.40)	, (5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19)	) रे <b>एगामों का</b> (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अलअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88)	<b>छि छि</b> लाखों में समाप 31.03.20 )(अकेक्षि 2.5 (1.31 (1.31 (2.19
<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4 5	इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्)	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेबित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.08)	2331 0001- 0 नअंकेक्षित रसमाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.97)	5 (5 लाइने वित्तीय प उ0.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70) (1.70) (1.86)	i समाप्त (ह. : 30.09.2019 )(अनअंकेक्षित 0.39 (1.65) (1.65) (1.80)	<b>हस्यौरा</b> लाखों में) वर्ष समाप्त 31,03.2020 )(अंकथित) 1.94 (2.25) (2.25) (2.89)	<b>3</b> ( क्र. सं. 1 2 3 4	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्)	ोन : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.96)	1 0001-05 न अंकेक्षित f 	, (5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48)	) रेणामों क (ह. र उ.0.9.2019 (अनअंकेक्षित) (0.88) (0.88) (1.21)	<b>छि छुटे।</b> लाखों में समाप 31.03.20 (अकेक्षि 2.5 (1.31 (1.31 (2.19 225.6
<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4	इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के परचात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के परचात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के परचात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के परचात्) कुल व्यापक आय (कर के परचात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90	2331 0001- 0 न अंकेक्षित 30.09.2019 (अनअंकेशित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90	5 (5 लाइने         छिमाही         30.09.2020         (अनअंकेक्षित)         0.25         (1.70)         (1.70)         (1.86)         350.19         24.90	i समाप्त (रु. : 30.09.2019 (अनअंकेक्षित 0.39 (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90	<b>हस्यौरा</b> लाखों में) <b>वर्ष</b> समाप्त 31,03,2020 (अंकेक्षित) 1.94 (2.25) (2.89) 169.78 24.90	<b>3</b> ( क्र. सं. 1 2 3 4 5	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का	नि : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेबित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00	1 0001-05 नअंकेक्षित f समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.41 (0.40) (0.40) (0.40) (0.55) (1.85) 20.00	, (5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00	<b>छियौरा</b> लाखों में) समाप् 31.02.00 )(अंकेक्षि 2.5 (1.31 (1.31 (2.19 225.6 20.0
<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4 5 6	इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13	2331 0001-0 न अंकेक्षित रसमाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39)	5 (5 लाइने         छिमाही         30.09.2020         (अनअंकेक्षित)         0.25         (1.70)         (1.70)         (1.86)         350.19         24.90         (0.75)	i समाप्त (रु. : 30.09.2019 (अनअंकेश्वित 0.39 (1.65) (1.65) (1.80) 52.90	<b>छि</b> समाप्त 31,03.2020 )(अंकेश्वित) 1.94 (2.25) (2.25) (2.89) 169.78	<b>3</b> ( क्र. सं. 1 2 3 4 5 6	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.)	ोन : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.96) (0.51)	1 0001-05 नअंकेक्षित f 	, (5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00	) रेणामों क (ह. र अत्माप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61)	<b>छियौरा</b> लाखों में) <b>वर्ष</b> समाप् 31.03.20 )(अंकेक्षि 2.55 (1.31 (1.31 (2.19 225.66 20.0 (1.10
<b>3(</b> क्र	इंमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के प्रश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्यूटिड (रु)	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43) (0.43)	2331 0001-0 नअंकेक्षित 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39)	5 (5 लाइने         वित्तीय प         छमाही         30.09.2020         (अनअंकेक्षित         0.25         (1.70)         (1.70)         (1.86)         350.19         24.90         (0.75)         (0.75)	i समाप्त 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 अनअंकेश्वित 0.39 (1.65) (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 (0.72) (0.72)	<b>हस्यौरा</b> लाखों में) वर्ष समाप्त 31,03.2020 (अंकेश्रित) 1.94 (2.25) (2.25) (2.89) 169.78 24.90 (1.16) (1.16)	<b>3</b> ( क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 7	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर अत्येक के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यूटिड (रु.)	iन : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48) (0.48)	1 0001-05 न अंकेक्षित f रसमाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.41 (0.40) (0.40) (0.55) (1.85) 20.00 (0.28) (0.28)	( 5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74)	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61)	ट्रियौरा लाखों में) वर्ष समाप 31,03.20 )(अंकक्षि 2.5 (1.31 (2.19 225.6 20.0 (1.10 (1.10) (1.10)
<b>3</b> ( क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 7	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्यूटिड (रु)	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43) (0.43) 0 नवंबर, 20	2331 0001-0 न अंकेक्षित 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आये	5 (5 लाइने         छिमाही         30.09.2020         (अनअंकेक्षित         0.25         (1.70)         (1.70)         (1.86)         350.19         24.90         (0.75)         (0.75)         (0.75)	i समाप्त (रु. : 30.09.2019 )(अनअंकेक्षित 0.39 (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 (0.72) (0.72)	ख्यौरा           लाखों में)           वर्ष           समाप्त           31,03.2020           (अंकश्वित)           1.94           (2.25)           (2.25)           (2.89)           169.78           24.90           (1.16)           (1.16)	<b>3</b> ( क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b><u>नोटः</u> 1. उ</b>	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यूटिड (रु.)	गि : 011 233         के स्वतंत्र अ         तिमाही         30.09.2020         (अनअंकेक्षित)         0.32         (0.89)         (0.89)         (0.96)         (0.51)         20.00         (0.48)         (0.48)         (0.48)         (0.48)	1 0001-05 न अंकेक्षित f 	, (5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जेत बैठक	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61)	<b>छियौरा</b> लाखों में) वर्ष समाप 31,03.20 )(अंकेक्षि 2.5: (1.31 (1.31 (2.19 225.6 20.00 (1.10 (1.10 (1.10 5 निदेश
<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 7 <b>नोट</b> :	इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्यूटिड (रु) उ प्ररोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 1 त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43) (0.43) (0.43) 0 नवंबर, 20 ने सेबी (एल.	2331 0001-0 नअंकेक्षित 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आयो ओडीआर ) वि	5 (5 लाइने         वित्तीय पा         छमाही         30.09.2020         (अनअंकेक्षित         0.25         (1.70)         (1.70)         (1.86)         350.19         24.90         (0.75)         (0.75)         (0.75)         (0.75)	i समाप्त (रु. : 30.09.2019 )(अनअंकेश्वित 0.39 (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 (0.72) (0.72) में कंपनी वे 015 के विग्	ख्यौरा           लाखों में)           वर्ष           समाप्त           31,03.2020           (अंकश्वित)           1.94           (2.25)           (2.25)           (2.89)           169.78           24.90           (1.16)           (1.16)           (1.16)	<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b><u>नोटः</u> 1.3 मंडल</b>	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे o सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और आसाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर के पश्चात् कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यूटिड (रु.)	1न : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48)	1 0001-05 नअंकेक्षित f 	, (5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जेत बैठक	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61) 15 के विनि	<b>छियौरा</b> लाखों में) वर्ष समाप 31,03.20 (346क्षि 2.5 (1.31 (2.19 225.6 20.0 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10)
<b>3(</b> क्र. 1 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 3	इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्य्युटिड (रु) प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 1 त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रिप	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43) (0.43) (0.43) (0.43) (0.43) (1.04) (0.43)(0.43) (0.43)(0.43)(0.43)(0.43)(0.43)(0.43)(0.43)(0.43)(0.43)(0.	2331 0001-0 न अंकेक्षित र समाप्त 30.09.2019 (अमअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आयो ओडीआर) ति स्टॉक एक्सचें	5 (5 लाइने         चित्तीय पा         छमाही         30.09.2020         (अनअंकेक्षित         0.25         (1.70)         (1.70)         (1.70)         (1.86)         350.19         24.90         (0.75)         (0.75)         (0.75)         (0.75)         (0.75)         (0.75)         (0.75)         (0.75)         उठलत बैठक         वनियम, 20         ज लिमिटेड	i) <b>रिणामों क</b> (रु. : <b>रे</b> समाप्त <b>30.09.2019</b> <b>30.39</b> (1.65) (1.65) (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 24.90 (0.72) (0.72) : में कंपनी वे 915 के विगि को प्रस्तुत व	ब्यौरा           लाखों में)           वर्ष           समाप्त           31,02,2020           (अकेश्वित)           1.94           (2.25)           (2.25)           (2.25)           (2.25)           (2.89)           169.78           24.90           (1.16)           (1.16)           (1.16)           तनदेशक           स्वमन 33<क्री गई है।	<b>3</b> ( क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> : 1.3 ह त मंडल् त	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे २ सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अर्चा के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल के प्रधात्य (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (ख) वायल्याप्त (रु.) (ख) वायल्याप्त के प्रधात्त के पश्चात्त ही। संबंधित रि	1न : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48)	1 0001-05 न अंकेक्षित 1 	, (5 लाइनें वेत्तीय परि छमाही 30.09.2020 (अनअकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जेत बैठक नियम, 20 1 लिमिटेड उ	) <b>रेणामों का</b> (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61) 	<b>1 ख्यौरा</b> लाखों में म समाए 31,03,22 ((3केक्सि (2.5 (1.31 (2.15 (2.15 (2.15) (1.10) (1.10) (1.10) (1.10) (1.11) (5 निदेश
<b>3(</b> ज़.स. 1 1 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 <b>1</b> 5 7 <b>1</b> 5 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> 7 <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् ि सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्यूटिड (रु) प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 1 त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रिप् पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विन्	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43)(0.43) (0.43)(0.43)(0.	2331 0001-0 न अंकेक्षित र समाप्त 30.09.2019 (अमअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आयो ओडीआर) ति स्टॉक एक्सचें	5 (5 लाइने वित्तीय प 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70) (1.70) (1.86) 350.19 24.90 (0.75) (0.75) (0.75) (0.75) जत बैठक बंनियम, 20 ज लिमिटेड एक्सचेंज के	i समाप्त (रु. : 30.09.2019 )(अनअंकेश्वित 0.39 (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 (0.72) (0.72) (0.72) : में कंपनी वे को प्रस्तुत क	ख्यौरा           लाखों में)           वर्ष           अ.(३.२०२०)           (अकेश्वित)           1.94           (2.25)           (2.25)           (2.89)           169.78           24.90           (1.16)           (1.16)           (1.16)           उगई है।           (किए गए	<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> : 1.उ ह त 3 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> : 1.उ 8 7 7	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे २ सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यूटिड (रु.) : प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षके हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रि पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के वि	1न : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48	1 0001-05 न अंकेक्षित 1 	, (5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जत बैठक नियम, 20 1 लिमिटेड : क्सचेंज के	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61) में कंपनी वे 15 के विनि को प्रस्तुत ब साथ दायर	बियौर           वाखों में           वाखों में           अग.03.2           (1.3)           (1.3)           (1.3)           (1.3)           (1.3)           (2.5)           (1.3)           (2.1)           (225.6)           20.0           (1.10)           (1.10)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.12)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.11)           (1.1
<b>3(</b> क्र. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> 3 3 4 5 6 7	इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् 0 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्य्युटिड (रु) प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 1 त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रिप	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43)(0.43) (0.43)(0.43)(0.	2331 0001-0 न अंकेक्षित र समाप्त 30.09.2019 (अमअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आयो ओडीआर) ति स्टॉक एक्सचें	5 (5 लाइने वित्तीय प 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70) (1.70) (1.86) 350.19 24.90 (0.75) (0.75) (0.75) (0.75) जत बैठक बंनियम, 20 ज लिमिटेड एक्सचेंज के	i) <b>रिणामों क</b> (रु. : <b>रे</b> समाप्त <b>30.09.2019</b> <b>30.39</b> (1.65) (1.65) (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 24.90 (0.72) (0.72) : में कंपनी वे 915 के विगि को प्रस्तुत व	ख्यौरा           लाखों में)           वर्ष           अ.(३.२०२०)           (अकेश्वित)           1.94           (2.25)           (2.25)           (2.89)           169.78           24.90           (1.16)           (1.16)           (1.16)           उगई है।           (किए गए	<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> : 1.उ ह त 3 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> : 1.उ 8 7 7	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे २ सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अर्चा के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के प्रधात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल के प्रधात्य के प्रधात्य जात्र के प्रधात्य जात्य (कर के प्रधात्य के त्य स्थित त्य साय के है । संबंधित रि	1न : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48	1 0001-05 न अंकेक्षित 1 	, (5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जत बैठक नियम, 20 1 लिमिटेड : क्सचेंज के	) <b>रेणामों का</b> (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61) 	<b>छियौरा</b> लाखों में समाप 31,03,20 (अकेक्षि 2.5 (1.31 (1.31 (2.19 225.6 20.0 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10)) (1.10 (1.10)) (1.10
<b>3</b> ( फ्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> 1. उ र मंडल् के त 2 उ	इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् ि सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्यूटिड (रु) इप्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 1 त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रिप् पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विन्	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43)(0.43) (0.43)(0.43)(0.	2331 0001-0 न अंकेक्षित र समाप्त 30.09.2019 (अमअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आयो ओडीआर) ति स्टॉक एक्सचें	5 (5 लाइने वित्तीय प 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70) (1.70) (1.86) 350.19 24.90 (0.75) (0.75) (0.75) (0.75) जत बैठक बंनियम, 20 ज लिमिटेड एक्सचेंज के	i) turni an (फ. : turni an (फ. : turni an (0.39 (1.65) (1.65) (1.65) (1.65) (1.65) (1.80) 52.90 24.90 (0.72)	कथौरा           लाखों में)           वर्ष           अ.७.२.020           (अंकेश्वित)           1.94           (2.25)           (2.25)           (2.25)           (2.89)           169.78           24.90           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)           (1.16)	<b>3(</b> क्र. सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> : 1.उ ह त 3 3 4 5 6 7 <b>नोट</b> : 1.उ 8 7 7	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे २ सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यूटिड (रु.) : प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षके हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रि पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के वि	1न : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48	1 0001-05 न अंकेक्षित 1 	, (5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जत बैठक नियम, 20 1 लिमिटेड : क्सचेंज के	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61) (0.61) (0.61) में कंपनी वे 15 के विनि को प्रस्तुत व साथ दायर एवं बोर्ड की	e द्यौरा लाखों में 31.03.20 (अकेक्षि 2.5 (1.31 (1.31 (2.19 225.6 20.0 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10)) (1.10 (1.10)) (1.10) (
<b>3</b> ( क्र	इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प्र ि सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर के परात्र एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर के पीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्यूटिड (रु) ट प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 1 त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रिप् पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनि धकृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43)(0.43) (0.43)(0.43)(0.	2331 0001-0 न अंकेक्षित र समाप्त 30.09.2019 (अमअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आयो ओडीआर) ति स्टॉक एक्सचें	5 (5 लाइने वित्तीय प 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70) (1.70) (1.86) 350.19 24.90 (0.75) (0.75) (0.75) (0.75) जत बैठक बंनियम, 20 ज लिमिटेड एक्सचेंज के	i समाप्त 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0	<b>छि</b> समाप्त 31,03,2020 (अंकेक्षित) 1.94 (2.25) (2.89) (2.89) (2.89) (2.89) (2.89) (2.89) (2.89) (2.89) (1.16) (1.	<b>3(</b> क्र रसं. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट:</b> 1.उ मंडल के त 2 उर्ज अर्ना	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे २ सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर फैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यूटिड (रु.) प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षको हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रि पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के वि धेकृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण	1न : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48	1 0001-05 न अंकेक्षित 1 	, (5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जत बैठक नियम, 20 1 लिमिटेड : क्सचेंज के	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61) में कंपनी वे 15 के विनि को प्रस्तुत ब साथ दायर एवं बोर्ड र्क	<b>छियौरा</b> लाखों में) <b>वर्ष</b> समाप्ट 31.03.20 )(अकेक्षि (1.31 (1.31 (1.31 (2.19 225.64 20.00 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10 (1.10)) (1.10 (1.10)) (1.10)
<b>3(</b> क्र. र. र. त क. त त क. त	इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in प् ि सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही र विवरण विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु) (ख) डायल्यूटिड (रु) इप्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और 1 त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रिप् पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विन्	कोन नं. 011 2 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.13 (1.05) (1.05) (1.05) (1.08) 352.13 24.90 (0.43)(0.43) (0.43)(0.43)(0.	2331 0001-0 न अंकेक्षित र समाप्त 30.09.2019 (अमअंकेक्षित) 0.17 (0.94) (0.94) (0.94) (0.97) 74.28 24.90 (0.39) (0.39) (0.39) 20 को आयो ओडीआर) ति स्टॉक एक्सचें	5 (5 लाइने वित्तीय प 30.09.2020 (अनअंकेक्षित 0.25 (1.70) (1.70) (1.86) 350.19 24.90 (0.75) (0.75) (0.75) (0.75) जत बैठक बंनियम, 20 ज लिमिटेड एक्सचेंज के	i समाप्त 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09.2019 0 30.09 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0	<b>छि</b> समाप्त 31,02,2020 (अंकेश्वित) 1.94 (2.25) (2.89) (2.89) (69.78 24.90 (1.16) (1.1	<b>3(</b> क्र सं. 1 2 3 4 5 6 7 <b>नोट:</b> 1. उ मंडल के त 2 उप अर्ना <b>स्थ</b>	ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in फे २ सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही विवरण संचालनों से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और या असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, एक्सेप्शनल और असाधारण आइटम के पश्चात्) कुल व्यापक आय (कर के पश्चात्) इक्विटी शेयर कैपीटल अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रु का (क) बेसिक (रु.) (ख) डायल्यूटिड (रु.) : प्रयोक्त की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और त द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षके हत आवश्यक रूप से सीमित समीक्षा की है। संबंधित रि पर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के वि	1न : 011 233 के स्वतंत्र अ तिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.32 (0.89) (0.89) (0.89) (0.96) (0.51) 20.00 (0.48) (0.48	1 0001-05 न अंकेक्षित 1 	, (5 लाइनें वेत्तीय पा छिमाही 30.09.2020 (अनअंकेक्षित) 0.61 (1.19) (1.19) (1.48) (1.03) 20.00 (0.74) (0.74) (0.74) जत बैठक नियम, 20 1 लिमिटेड : क्सचेंज के	) रेणामों क (ह. र समाप्त 30.09.2019 (अनअंकेक्षित) 0.81 (0.88) (0.88) (1.21) (2.60) 20.00 (0.61) (0.61) (0.61) (0.61) (0.61) में कंपनी वे 15 के विनि को प्रस्तुत व साथ दायर एवं बोर्ड की	